

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

(jn – as in jnAna)

manasu lOni marmamu-hindOLaM

In the kRti ‘manasu lOni marmamu’ – rAga hindOLaM, SrI tyAgarAja asks the Lord to hold his hand.

P manasu lOni ¹marmamunu telusukO
mAra rakshaka marakat(A)nga nA (manasu)

A ina kul(A)pta ²nIvE kAni
vEr(e)varu lEru Ananda hRdaya (manasu)

C munupu prEma-gala doravai sadA
canuvun(E)linadi goppa kAd(a)yya
kanikarambutOn(I) vELa ³nA
karamu paTTu tyAgarAja vinuta (manasu)

Gist

O Lord who vouchsafes the honour of the devotees! O Lord whose body is of emerald hue (dark-green)! O Benefactor of Solar dynasty! O Lord whose heart is ever in the state of bliss! O Lord praised by this tyAgarAja!

Deign to understand the inner yearning of my mind.

There is none else excepting You!

It is not great that You earlier governed me always kindly as the affectionate Lord; kindly hold my hand at this moment.

Word-by-word Meaning

P O Lord who vouchsafes (rakshaka) the honour (mAra) of the devotees! O Lord whose body (anga) (literally limbs) is (are) of emerald hue (dark-green) (marakata) (marakatAnga)!
deign to understand (telusukO) (literally know) the inner (lOni) yearning (marmamunu) (literally secret) of my (nA) mind (manasu).

A O Benefactor (Apta) of Solar (ina) dynasty (kula) (kulApta)! There is none (lEru) else (vEru evaru) (vErevaru) excepting (kAni) You (nIvE)! O Lord whose heart (hRdaya) is ever in the state of bliss (Ananda)!

O Lord who vouchsafes the honour of the devotees! O Lord whose body is of emerald hue! deign to understand the inner yearning of my mind.

C O Lord (ayya)! It is not (kAdu) (kAdayya) great (goppa) that You earlier (munupu) governed (Elinadi) me always (sadA) kindly (canuvuna) (canuvunElinadi) as the affectionate (prEma-gala) Lord (doravai);

kindly (kanikarambutOnu) hold (paTTu) my (nA) hand (karamu) at this (I) (kanikarambutOnI) moment (vELa);

O Lord praised (vinuta) by this tyAgarAja! O Lord who vouchsafes the honour of the devotees! O Lord whose body is of emerald hue! deign to understand the inner yearning of my mind.

Notes –

Variations -

¹ – marmamunu –marmamulu

References –

Comments -

² – nIvE kAni vErevaru lEru – This can be interpreted in two ways 'there is no one else excepting You' (to protect me) or 'there is no one else (in my mind) excepting You'. As has been noted below, this kRti being in 'nAyaki bhAva', the latter version seems to be more appropriate.

³ – nA karamu paTTu – hold my hand – literally means 'marry me'. This kRti is in 'nAyaki bhAva'

Devanagari

- प. मनसु लोनि मर्ममुनु तेलुसुको
मान रक्षक मरक(ता)ङ्गं ना (मनसु)
अ. इन कु(ला)स नीवे कानि
वे(रे)वरु लेरु आनन्द हृदय (मनसु)
च. मुनुपु प्रेम-गल दोरवै सदा
चनुवु(ने)लिनदि गोप्य का(द)य्य
कनिकरम्बुतो(नी) वेळ ना
करमु पट्टु त्यागराज विनुत (मनसु)

English with Special Characters

- pa. manasu lōni marmamunu telusukō
māna raksaka maraka(tā)ṅga nā (manasu)
a. ina ku(lā)pta nīvē kāni
vē(re)varu lēru ānanda hṛdaya (manasu)
ca. munupu prēma-gala doravai sadā
canuvu(nē)linadi goppa kā(da)yya

kanikarambutō(nī) vēla nā
karamu paṭṭu tyāgarāja vinuta (manasu)

Telugu

- ప. మను లోని మర్కుమును తెలుసుకో
మాన రక్కక మరక(తా)జ్ఞ నా (మను)
- అ. ఇన కు(లా)ప్త నీవే కాని
వే(రె)పరు లేరు ఆనంద హృదయ (మను)
- చ. మునుపు ప్రేమ-గల దొరవై సదా
చనువు(నే)లినది గౌప్య కా(ద)య్య
కనికరమ్ముతో(నీ) వేళ నా
కరము పట్టు త్యాగరాజ వినుత (మను)

Tamil

- ப. மனஸை லோனி மர்மமுனு தெலுஸாகோ
மான ரகங்க மரக(தா)ங்க³ நா (மனஸை)
- அ. இன கு(லா)ப்த நீவே கானி
வே(ரெ)வரு லேரு ஆனந்த³ ஹ்ருத³ய (மனஸை)
- ச. முனுபு ப்ரேம-கல தொ³ரவை ஸதா³
சனுவு(னே)லினதி³ கொ³ப்ப கா(த³)ய்ய
கனிகரம்பு³தோ(னீ) வேள நா
கரமு பட்டு த்யாக³ராஜ வினுத (மனஸை)

எனது மனத்தின் உள் மருமத்தினையறிந்துகொள்வாய்,
மானத்தைக் காப்போனே! மரகத (நிற) உடலோனே!

பரிதி குலத்திற்கினியோனே! நீயே யன்றி
வேறெவருமிலர், ஆனந்தமான இதயத்தோனே!
எனது மனத்தின் உள் மருமத்தினையறிந்துகொள்வாய்,
மானத்தைக் காப்போனே! மரகத (நிற) உடலோனே!

முன்பு, அன்புடைத் தலைவனாகி எவ்வமயமும்
பிரியமுடன், ஆண்டது பெரிதன்றய்யா;
கனிவுடன் இவ்வேளை யெனது
கரம் பற்றுவாய், தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனே!
எனது மனத்தின் உள் மருமத்தினையறிந்துகொள்வாய்,
மானத்தைக் காப்போனே! மரகத (நிற) உடலோனே!

Kannada

- ప. మనసు లోని మర్కుమును తెలుసుశో

- মান রঞ্জক মরক(তা)ঙ্গ না (মনসু)
- অ. ইন কু(লা)প্ত নীবে কানি
বে(রি)বর লৈরু আনন্দ হৃদয় (মনসু)
- চ. মুনুপু পৈঁমে-গল দোরপৈ সদা
জনপু(নৈ)লিনদি গোপ্ত কা(দ)য়ু
কনিকরম্বুতো(নৈ) বেং না
করম্বু পঁচ্চ তৃষ্ণুগৱাজ বিনুত (মনসু)

Malayalam

- പ. മനസു ലോനി മർമമുനു തേലുസുകോ
മാന രക്ഷക മരക(താ)ങ്ഗ നാ (മനസു)
- അ. ഇന കു(ലാ)പ്ത നീവേ കാനി
വേ(രേ)വരു ലേരു ആനന്ദ ഹൃദയ (മനസു)
- ച. മുനുപു പേമ-ഗല ഭോരവൈ സദാ
ചനുവു(നേ)ലിനദി ഗൊപ്പ കാ(ദ)യു
കനികരമ്പുതോ(നൈ) വേള നാ
കരമു പട്ടു ത്യാഗരാജ വിനുത (മനസു)

Assamese

- প. মনসু লোনি মর্মমুনু তেলুসুকো
মান বক্ষক মরক(তা)ঙ্গ না (মনসু)
- অ. ইন কু(লা)প্ত নীবে কানি
বে(বে)বরু লেৰু আনন্দ হৃদয় (মনসু)
- চ. মুনুপু প্ৰেম-গল দোৰৈ সদা
চনুৱু(নে)লিনদি গোপ্প কা(দ)য়ু
কনিকৰম্বুতো(নী) ৱেল না
কৰমু পট্টু আগৰাজ বিনুত (মনসু)

Bengali

- প. মনসু লোনি মর্মমুনু তেলুসুকো
মান রক্ষক মরক(তা)ঙ্গ না (মনসু)

অ. ইন কু(লা)প্ত নীবে কানি
বে(রে)বরু লেরু আনন্দ হদয় (মনসু)

চ. মুনুপু প্রেম-গল দোরোবে সদা
চনুবু(নে)লিনদি গোপ্প কা(দ)য়য়
কনিকরম্বতো(নী) বেল না
করমু পট্টু আগরাজ বিনুত (মনসু)

Gujarati

પ. મનસુ લોનિ મર્મમુનુ તોલુસુકો
માન રક્ષક મરક(તા)ડગ ના (મનસુ)
અ. ઈન કુ(લા)પ્ત નીવે કાનિ
વે(રુ)વર લેર આનજ છદ્ય (મનસુ)
ચ. મુનુપુ પ્રેમ-ગલ દોરવૈ સદા
થનુવુ(ને)લિનદિ ગાંઘ કા(દ)ય્ય
કનિકરમભુતો(ની) વેળ ના
કરમુ પટ્ટુ ત્યાગરજ વિનુત (મનસુ)

Oriya

ପ. ମନସ୍ବ ଲୋନି ମର୍ମମୁନ୍ଦୁ ତେଲୁସୁକୋ
ମାନ ରକ୍ଷକ ମରକ(ତା)ଙ୍ଗ ନା (ମନସ୍ବ)
ଆ. ଇନ କୁ(ଲା)ପ୍ତ ନୀବେ କାନି
ଖେ(ରେ)ଖରୁ ଲେରୁ ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟ (ମନସ୍ବ)
ଚ. ମୁନୁପୁ ପ୍ରେମ-ଗଲ ଦୋରାଣ୍ଡେ ସଦା
ଚନ୍ଦ୍ରଭୁ(ନେ)ଲିନଦି ଗୋପପ କା(ଦ)ଯ୍ୟ
କନିକରମୁତୋ(ନୀ) ଖେଳ ନା
କରମୁ ପଛୁ ତ୍ୟାଗରାଜ ଖିନୁତ (ମନସ୍ବ)

Punjabi

ਪ. ਮਨਸੁ ਲੋਨਿ ਮਰਮਮੁਨੁ ਤੇਲੁਸੁਕੋ

ਮਾਨ ਰਕਸ਼ਕ ਮਰਕ(ਤਾ)ਛਗ ਨਾ (ਮਨਸੁ)

ਆ. ਇਨ ਕੁ(ਲਾ)ਪਤ ਨੀਵੇ ਕਾਨਿ

ਵੇ(ਰੇ)ਵਰੁ ਲੇਰੁ ਆਨਨਦ ਹਿਦਯ (ਮਨਸੁ)

ਚ. ਮੁਨਪੁ ਪ੍ਰੇਮ-ਗਲ ਦੋਰਵੈ ਸਦਾ

ਚਨੁਵੂ(ਨੇ)ਲਿਨਦਿ ਗੱਪ ਕਾ(ਦ)ਯਯ

ਕਨਿਕਰਮਬੁਤੋ(ਨੀ) ਵੇਲ ਨਾ

ਕਰਮੁ ਪੱਟੁ ਤਜਾਗਰਾਜ ਵਿਨੁਤ (ਮਨਸੁ)